



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 वैशाख, 1940 (श०)

संख्या- 440 राँची, सोमवार, 23 अप्रैल, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

2 अप्रैल, 2018

संख्या-13/वरीय स्था० पद०-01/2016 का०- 2221-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गढ़वा की शक्तियाँ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गढ़वा को अगले आदेश तक के लिये प्रदान की जाती है ।

संख्या-13/वरीय स्था० पद०-01/2016 का०- 2222-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में श्री अमित शेखर, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग को अगले आदेश तक जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हजारीबाग के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-13/वरीय स्था० पद०-01/2016 का०- 2223-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में श्री राजेश शरण सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हजारीबाग को अगले आदेश तक वरीय संकाय सदस्य, न्यायिक अकादमी, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित करने हेतु इनकी सेवा न्यायिक अकादमी, झारखण्ड, राँची के शासी निकाय को सौंपी जाती है ।

संख्या-13/वरीय स्था० पद०-01/2016 का०- 2224-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में श्री बीरेश कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गढ़वा को अगले आदेश तक वरीय संकाय सदस्य, न्यायिक अकादमी, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित करने हेतु इनकी सेवा न्यायिक अकादमी, झारखण्ड, राँची के शासी निकाय को सौंपी जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

जितेंद्र बहादुर सिंह,
सरकार के अवर सचिव ।
